



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2006/फाल्गुन 3, 1927

No. 28]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2006/PHALGUNA 3, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, फरवरी 22, 2006/फाल्गुन 3, 1927 (शक)

अधिसूचना

सं० जैड-20025/18/2005-प्रशा० I: केन्द्र सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 की संख्या-22) की धारा 2 (ग) के साथ पठित खंड 5(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय में निदेशक श्री शाहिद मीजान को श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्यालय) में "लोक प्राधिकारी" के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट करती है।

श्री शाहिद मीजान अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अलावा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के निर्वाहन के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को नामोदिष्ट करने के संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय भी करेंगे और अन्य मंत्रालयों के साथ परस्पर संवाद करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव, भारत सरकार श्री के० चन्द्रमौलि उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के प्रयोजन के लिए वरिष्ठ अधिकारी बने रहेंगे।

जे०पी० पति,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2006/फाल्गुन 3, 1927

No. 28] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2006/PHALGUNA 3, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

(To be published in Part-II, Section 1 of the Extraordinary Gazette of India)

Government of India/Bharat Sarkar

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT/SHRAM AUR ROZGAR MANTRALAYA

New Delhi, the 22nd February, 2006/Phalguna 3, 1927 (Saka)

NOTIFICATION

No. Z-20025/18/2005-Adm. I: In exercise of powers conferred under section 5 (1) read with section 2 (c) of the Right to Information Act 2005 (No. 22 of 2005), the Central Government in the Ministry of Labour & Employment designate Shri Shahid Meezan, Director, Ministry of Labour & Employment as Central Public Information Officer in respect of the 'public authority' namely, the Ministry of Labour & Employment (Head Quarters).

In addition to his duties and responsibilities to carry out the purposes of the said Act, Shri Shahid Meezan will also coordinate all action taken up by public authorities under the Ministry of Labour & Employment regarding designating the Central Public Information Officer and the Asstt. Central Public Information Officers for carrying out the purposes of the said Act and shall be the nodal officer for the purposes of the said Act in respect of Ministry of Labour & Employment to interact with other Ministries.

Shri K. Chandramouli, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Labour & Employment shall continue to be the senior officer for the purpose of section 19 (1) of the said Act.

J.P. PATI,

Joint Secretary to the Government of India.